



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 15]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 12, 2003 (चैत्र 22, 1925)

No. 15]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 12, 2003 (CHAITRA 22, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 2

### [PART I—SECTION 2]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ]

प्रधान मंत्री कार्यालय

दिनांक 31 मार्च 2003

नई दिल्ली-110 011, दिनांक 25 मार्च 2003

सं ए-22012/1/2003-पी.एम.ए.-राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री कार्यालय के श्री एस.एन.सहाय, आई.ए.एस. (ए.जी.एम.यू. : 86), निदेशक की केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की अवधि को 30.3.2003 से आगे पांच माह की अवधि अर्थात् 30.8.2003 तक के लिए बढ़ाते हैं।

पी. के. राय, अवर सचिव

सं.आरएस./6(iii)/2003/10-कार्मिक--राज्य सभा में विपक्ष के माननीय नेता के वैयक्तिक स्टाफ में सहपदावसान के आधार पर निजी सचिव के रूप में नियुक्त श्री आर.सी. पांडे की सेवाएं 31 मार्च, 2003 से समाप्त कर दी गई हैं।

प्र. रं. गुहाराय, उप सचिव

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 मार्च 2003

सं. आरएस./36/2003/9-कार्मिक--अधिसूचना सं. आर एस/2(i)/2002/61-कार्मिक दिनांक 29 अगस्त, 2002 द्वारा राज्य सभा के महासचिव के रूप में डा. योगेन्द्र नारायण, भा.प्र.से. (सेवा निवृत्त), भूतपूर्व सचिव, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की नियुक्ति मंत्रिमंडल सचिव के रैंक और दर्जे में है।

प्र. रं. गुहाराय, उप सचिव

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 24 मार्च 2003

सं. पीएफ 1584(3)/जीएन-4911/ए एन-I/2003--अध्यक्ष महोदय 12750-16500 रुपये के वेतनमान में उप सचिव के पद पर कार्यरत श्री अशोक सरीन को 15100-400-18300 रुपये के वेतनमान में निदेशक के ग्रेड में तदर्थ आधार पर 13 मार्च, 2003 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रात अवतार राम, संयुक्त सचिव

## मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 01 अप्रैल 2003

सं. ए-19013-6-2001-प्रशा. I--राष्ट्रपति, श्री शत्रुघ्न सिंह, भा.प्र. सं. (उत्तरांचल : 83) को 31 मार्च, 2003 के अपराह्न से मंत्रिमंडल सचिवालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं। संयुक्त सचिव के रूप में उनका सामान्य केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल 26.11.2006 तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, होगा।

सुनील मिश्र, उप सचिव

सं. ए-19014-01-2003-प्रशा. I--राष्ट्रपति, श्री बी.बी. जैन को 01 अप्रैल, 2003 के पूर्वाह्न से मंत्रिमंडल सचिवालय में अवर सचिव नियुक्त करते हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय में उनके कार्यकाल की अवधि 1 अप्रैल, 2003 से सात वर्ष अथवा अगले आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, के लिए होगी।

सुनील मिश्र, उप सचिव

## अन्तरिक्ष विभाग

बैंगलूर-560 094, दिनांक 13 मार्च 2003

सं. 3/1(2)/2003-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में श्री आशिष एम.आर., वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी. का सेवा से त्यागपत्र दिनांक 31.01.2003 के अपराह्न से स्वीकार करते हैं।

के. एस. रामचन्द्र, अवर सचिव

सं. 3/1(2)/2003-I--अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित अधिकारियों ने स्वैच्छिक रूप में निवृत्ति स्वीकार होने के परिणामस्वरूप प्रत्येक के सामने दी गयी तारीखों के पूर्वाह्न से अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया है :--

क्रम.नाम सं.	पद	कार्यमुक्ति की तिथि
श्री/श्रीमती/कु.		
1. डॉ. के.एस. विश्वनाथन	वैज्ञा./इंजी.-एस.जी	10.02.2003
2. सी.के. केरलदासन	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	03.02.2003

के.एस. रामचन्द्र, अवर सचिव

सं. 3/1(2)/2003-I--अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित अधिकारियों ने अपने निवर्तन आयु प्राप्ति के परिणामस्वरूप प्रत्येक के सामने दिये गये पदों से दिनांक 31.01.2003 के अपराह्न से कार्यभार छोड़ दिया है :

क्र. सं.	नाम	पद
श्री/श्रीमती/कु.		
1.	एस.ए. पल्लविस्वामी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एच
2.	आई. वी. क्षप्पा राव	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एच
3.	एस. कृष्णमूर्ति	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी
4.	एम.वी. जोसे	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई
5.	जेम्स माथ्यू	प्रधान क्रय व भण्डार

के.एस. रामचन्द्र, अवर सचिव

सं. 4/1(1)/2003-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के सतीश धवन अन्तरिक्ष केन्द्र, शार श्रीहरिकोटा में श्री के. बालकृष्णन को प्रधान, क्रय व भण्डार के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 3.2.2003 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं।

के. एस. रामचन्द्र, अवर सचिव

सं. 5/1(1)/2003-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बैंगलूर में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों को प्रत्येक के सामने दिए गए पदों पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01.01.2003 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :--

क्र सं.	नाम	पद जिससे पदोन्नत किया गया	पद जिस पर पदोन्नति की गई
1	2	3	4
श्री/श्रीमती/कु.			
1.	एल.एम. गंगराडे	वैज्ञा./इंजी.-एस.जी	वैज्ञा./इंजी.-जी
2.	नंजुण्डस्वामी टी.एस	वैज्ञा./इंजी.-एस.जी	वैज्ञा./इंजी.-जी
3.	टी.के. गोस्वामी	वैज्ञा./इंजी.-एस.जी	वैज्ञा./इंजी.-जी
4.	जे.ए. कमलाकर	वैज्ञा./इंजी.-एस.जी	वैज्ञा./इंजी.-जी
5.	के. कनकराजु	वैज्ञा./इंजी.-एस.जी	वैज्ञा./इंजी.-जी
6.	सदानन्द किणी	वैज्ञा./इंजी.-एस.ई	वैज्ञा./इंजी.-एस.एफ
7.	एच.एस. वासुदेवमूर्ति	वैज्ञा./इंजी.-एस.ई	वैज्ञा./इंजी.-एस.एफ
8.	सी.एन. उमापति	वैज्ञा./इंजी.-एस. ई	वैज्ञा./इंजी.-एस.एफ.
9.	केशव मूर्ति, के. ए.	वैज्ञा./इंजी.-एस. ई	वैज्ञा./इंजी.-एस.एफ

के. एस. रामचन्द्र, अवर सचिव

सं. 5/1(1)/2003-1--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों एस.जी. को वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-जी. के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01.07.2002 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :

श्री/श्रीमती/कु.

1. एन.एस. गोपिनाथ
2. टी. एल. धनबालन
3. एस. टी. वेंकटरमणन

के. एस. रामचन्द्र, अवर सचिव

सं. 5/1(1)/2003-1--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एच को विशिष्ट वैज्ञानिकों के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01.01.2003 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :

श्री/श्रीमती/कु.

1. वी.आर. कट्टी
2. एच. नारायण मूर्ति
3. डॉ. टी.के. अलेक्स
4. डॉ. सुरेन्द्र पाल

के. एस. रामचन्द्र, अवर सचिव

सं. 5/1(1)/2003-1--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों को प्रत्येक के सामने दिए गए पदों पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01.01.2003 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	पद जिससे पदोन्नत किया गया	पद जिस पर पदोन्नति की गई
1	2	3	4

श्री/श्रीमती/कु.

1.	नरसिंहलु नायडु एस.एम	वैज्ञा./इंजी.-एस.सी.	वैज्ञा./इंजी.-एस.डी
2.	आर. जनार्दन	वैज्ञा./इंजी.-एस.सी.	वैज्ञा./इंजी.-एस.डी
3.	आर. सुब्रमण्य	वैज्ञा./इंजी.-एस.सी	वैज्ञा./इंजी.-एस.डी
4.	के.गणेश कुमार	वैज्ञा./इंजी.-एस.सी	वैज्ञा./इंजी.-एस.डी
5.	मुनेगौडा	वैज्ञा./इंजी.-एस.बी	वैज्ञा./इंजी.-एस.सी
6.	एस. नटराज	वैज्ञा./इंजी.-एस.बी	वैज्ञा./इंजी.-एस.सी

के. एस. रामचन्द्र, अवर सचिव

सं. 5/1(1)/2003-1--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस.डी को वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस.ई के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01.01.2003 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :

श्री/श्रीमती/कु.

1. एम.एल. सुब्रमण्य
2. एस. सुब्रमण्य
3. के. हरिदास
4. फ्रान्सिस थामस
5. पी. गोविन्दन
6. ए. हनुमन्तरायप्पा
7. सदाशिव द्विवेदी

के. एस. रामचन्द्र, अवर सचिव

सं. 5/1(1)/2003-1--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस.एफ को वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस. जी के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01.01.2003 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :

श्री/श्रीमती/कु.

1. एस. वेंकटेश्वरा राव
2. एच. एस. राम राव
3. के. सी. एस. चौधरी
4. ए. सुरेश
5. जी.वी.सी.राजन
6. एन. विश्वनाथ
7. जी. मोहनकृष्णन
8. एम. वेंकट राव
9. डॉ. पी. के. महाराणा
10. डॉ. आनन्द कुमार शर्मा

के. एस. रामचन्द्र, अवर सचिव

सं. 5/1(2)/2003-1--अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में प्रो. ए.वी. पटकी, विशिष्ट वैज्ञानिक ने स्वैच्छिक रूप में निवृत्ति स्वीकार होने के परिणामस्वरूप दिनांक 01.02.2003 के पूर्वाह्न से अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

के. एस. रामचन्द्र, अवर सचिव

सं. 6/1(1)/2003-1--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद में श्री वी. ए. पटेल, वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी को वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 1.1.2003 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं।

के. एस. रामचन्द्र, अवर सचिव

सं. 8/1(1)/2003-1--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो दूरमिति अनुवर्तन तथा आदेश नेटवर्क, बेंगलूर में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों को प्रत्येक के सामने दिए गए पदों पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01.01.2003 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :

क्र. सं.	नाम	पद जिससे पदोन्नत किया गया	पद जिस पर पदोन्नति की गई
1	2	3	4
श्री/श्रीमती/कु.			
1.	मिर्जा मोहम्मद ज़हीर	वैज्ञा./इंजी.-एस.डी	वैज्ञा./इंजी.-एस.ई
2.	रवीन्द्र सिंह	वैज्ञा./इंजी.-एस. बी.	वैज्ञा./इंजी.-एस.सी.
3.	चि. वेंकट रामण	वैज्ञा./इंजी.-एस. बी.	वैज्ञा./इंजी.-एस.सी.

के. एस. रामचन्द्र, अवर सचिव

सं. 10/1(1)/2003-1--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के ई.एम.डी., एन. आर.एस.ए., हैदराबाद में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस.डी को वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस.ई के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01.01.2002 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :

श्री/श्रीमती/कु.

1. डी. वी. शेपा साई
2. टी. हरिनाद टैगूर

के. एस. रामचन्द्र, अवर सचिव

सं. 10/1(1)/2003-1--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के सीईडी, बेंगलूर में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों को प्रत्येक के सामने दिए गए पदों पर स्थानापन्न रूप में प्रत्येक के सामने दिए गए दिनांकों के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं ।

क्रम सं.	नाम	पद जिस पर पदोन्नति की गई	दिनांक
श्री/श्रीमती/कु.			
1.	जी.एन.के. कुमार	वैज्ञा./इंजी.-एस.एफ	01.01.2002
2.	बी.विरूपाक्षप्पा	वैज्ञा./इंजी.-एस.एफ	01.01.2002
3.	बी.के. नंजुंडन	वैज्ञा./इंजी.-एस.ई	01.01.2002
4.	के.ए.एस. सुब्रमण्यम	वैज्ञा./इंजी.-एस.ई	01.07.2002
5.	डी. कृष्णस्वामी	वैज्ञा./इंजी.-एस.ई	01.01.2003
6.	एस. थण्डपाणी	वैज्ञा./इंजी.-एस.डी	01.01.2003

के. एस. रामचन्द्र, अवर सचिव

सं. 10/1(1)/2003-1--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के सी.ई.डी., सैक, अमहदाबाद में श्री आर.जे. अज़वालिया को वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी. के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01.01.2003 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं।

के. एस. रामचन्द्र, अवर सचिव

सं. 10/1(1)/2003-1--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के वी.एस.एस. सी, धुम्बा में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों को प्रत्येक के सामने दिए गए पदों पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01.01.2003 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं।

क्रम सं.	नाम	पद जिससे पदोन्नति की गई	पद जिस पर पदोन्नति की गई
श्री/श्रीमती/कु.			
1.	ए.वी. स्कारिया	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस.सी	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस.डी
2.	लॉरेन्स ए.जे.	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस.बी	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस.सी

के. एस. रामचन्द्र, अवर सचिव

सं. 10/1(1)/2003-1--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के सीईडी, एस. डी.एस.सी., श्रीहरिकोट में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों को प्रत्येक के सामने दिए गए पदों पर स्थानापन्न रूप में प्रत्येक के सामने दिए गए दिनांकों के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं।

क्रम सं.	नाम	पद जिस पर पदोन्नति की गई	दिनांक
श्री/श्रीमती/कु.			
1.	एस. दास	वैज्ञा./इंजी.-एस.ई	01.01.2002
2.	वी.वी. रामनाथम	वैज्ञा./इंजी.-एस.ई	01.01.2002
3.	एस. विजयानन्दा राव	वैज्ञा./इंजी.-एस.ई	01.01.2002
4.	गणपति	वैज्ञा./इंजी.-एस.डी	01.01.2002
5.	पी.एस. कुमार स्वामी	वैज्ञा./इंजी.-एस.डी	01.01.2002
6.	के.के.एस.वी.वी. प्रकाश राव	वैज्ञा./इंजी.-एस.डी	01.01.2003
7.	आर. रामकृष्ण मूर्ति	वैज्ञा./इंजी.-एस.सी	01.01.2003
8.	पी. शशिधर	वैज्ञा./इंजी.-एस.सी	01.01.2002

के. एस. रामचन्द्र, अवर सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 3 फरवरी 2003

सं. एफ. 6(1841)/2002-प्रशासन-1--आई.एस.एस. के जे.ए.जी. अधिकारियों की दिनांक 30.6.2003 तक तदर्थ पदोन्नति को बढ़ाने सम्बन्धी

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिनांक 21.01.2003 के कार्यालय ज्ञापन सं. 12016/5/98-आईएसएस के अनुसरण में और योजना आयोग की दिनांक 08.01.2002 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में, आई.एस.एस. के जे.ए.जी. अधिकारी श्री एस.के. दास की योजना आयोग में उप सलाहकार के रूप में तदर्थ नियुक्ति दिनांक 30.6.2003 तक अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, बढ़ायी जाती है।

के.के. छाबड़ा, अवर सचिव

दिनांक 13 फरवरी 2003

सं. ए-12025/27/2002-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, डा. एस.के. खंडूरी, भारतीय वानिकी सेवा (के एल : 84) को योजना आयोग में 16,400-20,000/- रु. (केवल इन्हीं पर लागू) के वेतनमान में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के आधार पर दिनांक 10.2.2003 के पूर्वाह्न से निदेशक (वानिकी) के पद पर दिनांक 13.01.2007 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

के.के. छाबड़ा, अवर सचिव

दिनांक 18 फरवरी 2003

सं. एफ-6(1467)/91-प्रशासन-I--आर्थिक मामले विभाग के दिनांक 30.01.2003 के आदेश सं. 13015/1/2002-आई.ई.एस. के अनुसरण में योजना आयोग में निदेशक तथा भारतीय आर्थिक सेवा की एनएफएसजी अधिकारी श्रीमति मंजुला कृष्णन को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु दिनांक 18.02.2003 की अपराह्न से कार्यभार मुक्त किया जाता है।

के.के. छाबड़ा, अवर सचिव

दिनांक 20 फरवरी 2003

सं. एफ-6 (1704)/97-प्रशासन-I--आर्थिक मामले विभाग के दिनांक 30.01.2003 के आदेश सं. 13015/1/2002-आई.ई.एस. के तहत योजना आयोग में उनकी तैनाती होने के परिणामस्वरूप भारतीय आर्थिक सेवा की एनएफएसजी अधिकारी श्रीमती रुपा दत्ता ने दिनांक 19.02.2003 की पूर्वाह्न से योजना आयोग में 14,300-400-18,300 रु. के वेतनमान में निदेशक के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

के.के. छाबड़ा, अवर सचिव

दिनांक 12 मार्च 2003

सं. ए-44014/1/2002-प्रशा.-II--सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में उपसलाहकार के पद पर छः माह की अवधि के लिए तदर्थ प्रतिनियुक्ति के आधार पर चयन होने के परिणामस्वरूप, श्री सुरेन्द्र सिंह, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, योजना आयोग की सेवाएं 12.3.2003 की अपराह्न से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को सौंपी जाती हैं।

के.के. छाबड़ा, अवर सचिव

दिनांक 31 मार्च 2003

सं. एफ. 6(1685)/96-प्रशासन-I--अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप योजना आयोग में उप सलाहकार (ऊर्जा नीति), श्री नरेन्द्र पाल दिनांक 31.03.2003 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होते हैं तथा उसी तिथि से उन्होंने अपना पदभार त्याग दिया है।

के.के. छाबड़ा, अवर सचिव

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 21 मार्च 2003

सं. 12018/1/2002-आई. एस. एस.--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में, के. सां. सं. में उप निदेशक के रूप में तैनात भारतीय सांख्यिकीय सेवा के एक वरिष्ठ समय वेतनमान स्तर के अधिकारी, श्री दीना नाथ दिनांक 31.01.2003 (अपराह्न) से सेवा-निवृत्त हो गए हैं।

के. बी. अरोड़ा, अवर सचिव

(राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन)

समंक विधायन प्रभाग मुख्यालय

कोलकाता-700 108, दिनांक 14 फरवरी 2003

सं. ए-38011/1/01-सी.एस. डब्ल्यू--श्री हृदय भट्टाचार्य, लेखा-सह-प्रशासनिक अधिकारी, समंक विधायन केन्द्र, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, नागपुर, अधिवर्षिता की आयु के हो जाने पर सरकारी सेवा से दिनांक 31 दिसम्बर, 2002 के अपराह्न से सेवा निवृत्त हो गये।

पी. श्रीधरन, उप निदेशक (प्रशा.)

कार्यालय प्रमुख

सं. ए-38011/1/01-सी.एस. डब्ल्यू--श्री माणिक मजुमदार, समंक विधायन सहायक-I, समंक विधायन प्रभाग (मुख्यालय), राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, कोलकाता, अधिवर्षिता की आयु के हो जाने पर सरकारी सेवा से दिनांक 31 दिसम्बर, 2002 के अपराह्न से सेवा निवृत्त हो गये।

पी. श्रीधरन, उप निदेशक (प्रशा.)

कार्यालय प्रमुख

सं. ए-38011/1/01-सी.एस. डब्ल्यू--श्री नारायण चन्द्र दास, समंक विधायन सहायक-I, समंक विधायन प्रभाग (मुख्यालय), राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, कोलकाता, केन्द्रीय सिविल (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 48(ए) के तहत सरकारी सेवा से दिनांक 1 नवम्बर, 2002 पूर्वाह्न से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं।

पी. श्रीधरन, उप निदेशक (प्रशा.)

कार्यालय प्रमुख

सं. ए-38011/1/01-सी.एस. डब्ल्यू--श्री आर. के. पाल, लेखा-सह-प्रशासनिक अधिकारी, समंक विधायन केन्द्र, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, नई दिल्ली, अधिवर्षिता की आयु के हो जाने पर सरकारी सेवा से दिनांक 31 दिसम्बर, 2002 के अपराह्न से सेवा निवृत्त हो गये।

पी. श्रीधरन, उप निदेशक (प्रशा.)

कार्यालय प्रमुख

## विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 24 मार्च 2003

सं. ए. 12025(i)/2/2002-प्रशा. 1 (वि.वि.) : राष्ट्रपति जी, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर, श्री उदय कुमार को, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग में रु. 10,000-325-15200/- के वेतनमान में दिनांक 20 मार्च, 2003 की अपराह्न से और अगले आदेशों तक सहायक विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड iv) के पद पर स्थानापन्न रूप से सहर्ष नियुक्त करते हैं।

श्री उदय कुमार 20 मार्च, 2003 की अपराह्न से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे।

एम. दास, उप सचिव

## गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 मार्च 2003

सं. ए-32014/12/2001-प्रशा. 1--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के गृह मंत्रालय संवर्ग के निम्नलिखित वैयक्तिक सहायकों की आशुलिपिकों की संविलयित श्रेणी 'क' एवं 'ख' के रूप में पूर्ण रूप से तदर्थ आधार पर की गई नियुक्ति को दिनांक 30.06.2003 तक अथवा नियमित अभ्यर्थियों के मिलने तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक के लिए निरंतर करते हैं :-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम
1	2
	(सर्वश्री)
1.	श्रीमती प्रेम गोसाईं
2.	श्रीमती श्रीविद्या रमेश
3.	श्रीमती पी. गायत्री
4.	डी. एस. गर्ग
5.	बलदेव सिंह
6.	परवीन दत्ता
7.	के.एल. कपूर
8.	वी. एस. भण्डारी
9.	मधु बुधवर
10.	मणिकन्दन नय्यर
11.	जसविन्दर सिंह
12.	सुश्री अरुणा उपाध्याय

एस. के. भटनागर, अवर सचिव

दिनांक 28 मार्च 2003

सं. 20/जी/2476-प्रशा. 1--राष्ट्रपति, श्री राकेश, भा. प्र. से. (एम.टी. 72) को गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में दिनांक 17 मार्च, 2003 पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक के लिए नियुक्त करते हैं।

एस. के. भटनागर, अवर सचिव

दिनांक 2 अप्रैल 2003

सं. ए. 35014/36/95/-प्रशासन-5--राष्ट्रपति, श्री के.एन. उनियाल, जो केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के ग्रेड -4 अधिकारी हैं तथा गृह मंत्रालय में, वरिष्ठ अनुवादक हैं, को राजभाषा विभाग में अनुसंधान अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि को 6 माह के लिए दिनांक 26.2.2003 से 26.8.2003 तक (8वें वर्ष के लिए) बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृत करते हैं।

एस. के. भटनागर, अवर सचिव

## राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो

नई दिल्ली-110066, दिनांक 24 मार्च 2003

सं. 34/1/2003-प्रशा. 2/रा.अ.रि. ब्यूरो--राष्ट्रपति, सहर्ष श्री मुनेश पाल शर्मा, डी.एफ.ओ. (सिफर कम्प्यूटर), राज्य सुरक्षा ब्यूरो मुख्यालय, नई दिल्ली को राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के कम्प्यूटर एवं प्रणाली प्रभाग में रु. 8000-275-13500/- के वेतनमान में 17 जनवरी, 2003 (पूर्वाह्न) से 3 वर्षों के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर कनिष्ठ स्टाफ अधिकारी के पद पर अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

भूपेन्द्र सिंह धूपिया  
सहायक निदेशक (प्रशा.)

सं. 34/2/2003-प्रशा. 2/रा.अ.रि. ब्यूरो--राष्ट्रपति, सहर्ष श्री पवन कुमार, उप निरीक्षक (अंगुलि छाप), राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो को स्थानान्तरण (आमेलन) के आधार पर राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के कम्प्यूटर एवं प्रणाली प्रभाग में रु. 8000-275-13500/- के वेतनमान में दिनांक 17 जनवरी, 2003 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक कनिष्ठ स्टाफ अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

भूपेन्द्र सिंह धूपिया  
सहायक निदेशक (प्रशा.)

## वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 मार्च 2003

सं. / /2003 (फा. सं. 4/24/2002-प्रशा. 1ग)--राष्ट्रपति, श्री आर. एन. दास, भारतीय प्रशासनिक सेवा (गुजरात : 71) को, दिनांक 24 फरवरी, 2003 अपराह्न से अगले आदेश होने तक भारत सरकार के अपर सचिव के

रैंक तथा वेतन में राजस्व विभाग में प्रवर्तन निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

अनिरुद्ध तिवारी, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 10 मार्च 2003

सं. 21 : (फा. सं. 19013/4/2003-प्रशा. 1)---राष्ट्रपति, भारतीय वित्त लेखिकाधिकारी श्री दिनेश कपिला को दिनांक 4.3.2003 (अपराह) से तथा अगले आदेशों तक राजस्व विभाग में अवर सचिव नियुक्त करते हैं। उन्हें अवर सचिव (विक्री कर) के रूप में तैनात किया जाता है।

प्रीति पन्त, अवर सचिव

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 मार्च 2003

सं. ए. 12011/2/2002-प्रशा. II---राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री गोविन्द मोहन (सिविकम : 89) को, दिनांक 5 मार्च, 2003 के पूर्वाह से दो वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त एवं कंपनी कार्य मंत्रालय में उप-सचिव नियुक्त करते हैं।

आई.सी. काम्बोज, अवर सचिव

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 मार्च 2003

सं. ए.-19011/192/96-स्था.---राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के श्री जी.आर. सुमन, उप सचिव को, उनके लिए व्यक्तिगत उपाय के रूप में, उनके द्वारा धारित उप सचिव के पद को निदेशक के स्तर पर अपग्रेड करके दिनांक 24 मार्च, 2003 के पूर्वाह से उनकी अधिवर्षिता की तारीख तक या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, 14300-400-18300/- रु. के वेतनमान में आर्थिक कार्य विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

डी. पी. भारद्वाज, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 25 मार्च 2003

फा. सं.-15/3/03-डी आर टी---राष्ट्रपति, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में अनुभाग अधिकारी श्री जे.बी. शर्मा को 10,000-15,200/- रुपए के वेतनमान में प्रतिनियुक्त के आधार पर वसूली अधिकरण-II, दिल्ली के कार्यालय में वसूली अधिकारी के पद पर दिनांक 18.2.2003 (पूर्वाह) से तीन वर्ष की अवधि अथवा

अगला आदेश होने तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

एस.पी.एस. सांगवान, अवर सचिव

भारत सरकार टकसाल

नौएडा-201301, दिनांक 25 मार्च 2003

एन. एम./140/1/4/(19)/2002-03/प्रशा./1936/572---श्री एस.एम. कश्यप, सुरक्षा निरीक्षक, भारत सरकार टकसाल, नौएडा को एतद्द्वारा सुरक्षा अधिकारी (श्रेणी 'ख' राजपत्रित, अनुसचिवीय), वेतनमान रु. 6500-200-10500 के पद पर विशुद्धतः तदर्थ आधार पर दिनांक 17 मार्च 2003 (पूर्वाह) से एक वर्ष अथवा अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले हो नियुक्त किया जाता है।

2. तदर्थ पदोन्नति श्री एस.एम. कश्यप को नियमित पदोन्नति का कोई अधिकारी नहीं देती तथा उन्हें किसी भी समय निचले पद पर वापिस किया जा सकता है।

पी.के. दास, महा प्रबंधक

एन. एम./140/1/4/(21)/2002-03/प्रशा./1908/573---प्रिंसीपल लेखा कार्यालय, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली के कार्यालय आदेश सं. 59(ए)/2003 (फा. सं. ए-35010/3/डेपु/2003/एल सी/7399/7408), दिनांक 7 मार्च 2003 के अनुक्रम में कार्य मुक्त किए जाने के उपरान्त श्री के. एल. वर्मा, वरि. लेखाकार को एतद्द्वारा बुलियन अधिकारी, श्रेणी "ख" (राजपत्रित) वेतनमान रु. 7450-225-11500 के पद पर भारत सरकार टकसाल, नौएडा में दिनांक 10 मार्च 2003 से तीन वर्ष की अवधि अथवा अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले हो, प्रतिनियुक्त आधार पर नियुक्त किया जाता है।

पी.के. दास, महा प्रबंधक

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 मार्च 2003

सं. ए-5(4)/2003/ई पी जेड---राष्ट्रपति द्वारा श्री बी. मोहन, मूल्यांकक, सीमाशुल्क भवन, चेन्नई को दिनांक 3.2.2003 (अपराह) से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक 6500-200-10,500 रुपए के वेतनमान में इसी पद पर विकास आयुक्त का कार्यालय मद्रास विशेष आर्थिक क्षेत्र, चेन्नई में प्रतिनियुक्त के आधार पर नियुक्त किया जाता है।

वी. रामाकृष्णन, अवर सचिव

## विदेश व्यापार महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 मार्च 2003

फाईल सं. 2/2/2002-एच आर डी-1/688/संख्या 07/2003--विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर महानिदेशक, विदेश व्यापार निम्नलिखित अधिकारियों को विदेश व्यापार महानिदेशालय में उनके नाम के आगे उल्लिखित तारीख से विदेश व्यापार विकास अधिकारी (राजपत्रित श्रेणी "बी") (गैर केन्द्रीय सचिवालय सेवा) के पद पर नियुक्त करते हैं तथा कार्यालय आदेश संख्या 36/2003 दिनांक 26.03.2003 के अधीन स्थानान्तरण/तैनाती की जाती है :--

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	प्रभावी तिथि
1.	श्री एम. एन. येनापे	तत्काल प्रभाव से
2.	श्रीमती जया बी. नायर	01.04.2003
3.	श्री पी सी रविन्द्रन	01.04.2003

अ. कु. म. चाकणकर  
संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार

## वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 मार्च 2003

सं. 05/2003 (ए-12022/01/2003-स्थापना)--राष्ट्रपति द्वारा, श्रीमती कस्तूरी जी. मेनन, आई.ए.एस. (पश्चिम बंगाल : 69) को 3 मार्च, 2003 पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक, वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत अपर-सचिव के समान पद व वेतन में विकास आयुक्त (हथकरघा) के रूप में नियुक्त किया जाता है।

गुरदेव सिंह बसरा, अवर सचिव

## पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 मार्च 2003

सं. ए-19011/2003-स्थापना--राष्ट्रपति, श्री प्रभ दास, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पश्चिम बंगाल : 81) को 20.3.2003 (पूर्वाह्न) से 5 वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. श्री प्रभ दास ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव का कार्यभार उपर्युक्त तारीख को संभाल लिया है।

एस. एस. केमवाल, अवर सचिव

## कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 मार्च 2003

सं. 12012/1/2003-प्रशा.--राष्ट्रपति जी श्री मादिरे पूर्ति, निवासी मोहना डोली, पुलिस स्टेशन खूंटी, जिला रांची, झारखण्ड को 30 जनवरी, 2003

(पूर्वाह्न) से 6500-10500 रुपये के वेतनमान में कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) के प्रथम वैयक्तिक सहायक के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं। उनकी नियुक्ति मंत्री जी के कार्यकाल के साथ समाप्त अथवा जब तक मंत्री जी को उनकी सेवाओं की आवश्यकता हो, इसमें से जो पहले हो, उस समय तक होगी।

पार्वती कौटिया, अवर सचिव

## विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 24 मार्च 2003

सं. ए-11013/01/2001-प्रशा. 1(ए)--राष्ट्रपति, श्री एस.सी. पोद्दार [आई ए एस (एजी एम यू : 87)] को 14300-400\*18300/- रुपये के वेतनमान में माननीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जी के वैयक्तिक स्टाफ में निजी सचिव के पद पर 24.03.2003 (पूर्वाह्न) से सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. श्री एस. सी. पोद्दार, निजी सचिव की नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनके द्वारा मंत्री जी के निजी सचिव के रूप में कार्य करने तक अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक होगी।

3. वे अपना वेतन सामान्य नियमों के अंतर्गत अपने ग्रेड की पात्रता के अनुसार प्राप्त करेंगे।

टी.एन. द्विवेदी, अवर सचिव

## पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 25 मार्च 2003

सं. ए-120120/9/95-पी II--राष्ट्रपति, राजभाषा विभाग के आदेश संख्या 5/14/2002-रा.भा. दिनांक 13.12.2002 के अनुसरण में इस मंत्रालय में सहायक निदेशक (रा.भा.) के पद पर तदर्थ आधार पर कार्यरत श्री नरेन्द्र सिंह को 6500-200-10500/- रुपये के वेतनमान में सहायक निदेशक (रा.भा.) के पद पर 13.12.2002 से नियमित आधार पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

जफरुल इस्लाम, अवर सचिव

## स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 मार्च 2003

सं. ए. 11013/1/2003-स्थापना-I--सक्षम प्राधिकारी, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय में अवर सचिव के पद पर कार्य कर रहे केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री सुरेश शर्मा की 11.2.2003 के अपराह्न से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) के अतिरिक्त निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

श्री सुरेश शर्मा की नियुक्ति सहकालिक आधार पर अथवा जब तक वे मंत्री के अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य करना बन्द नहीं कर देते अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, होगी।

सी.एम. शर्मा, अवर सचिव



## (स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 मार्च 2003

सं. ए. 12025/24/2002-सी.एच.एस.-IV--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा. भगवती प्रसाद शर्मा को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापनेतर विशेषज्ञ उपसंवर्ग के विशेषज्ञ ग्रेड-2 (अस्थि रोग विज्ञान) में परिवीक्षा पर नियुक्त करके उन्हें 30 जनवरी, 2003 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में तैनात करते हैं।

यू. सी. नांगिया, उप सचिव

नई दिल्ली-11, दिनांक 21 मार्च 2003

सं. ए. 38011/1/2003-सी.एच.एस.-I--केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एन.एफ.एस.जी.) के पद पर तैनात केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के नियमित संवर्ग की डा. (श्रीमती) एल. बी. जेथरा ने अधिवर्गितावय प्राप्त कर लेने पर अपनी सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप 31.12.2002 (अपराह्न) को अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

दिनांक 25 मार्च 2003

सं. ए. 12025/37/2001-सी.एच.एस.-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा. (श्रीमती) मनीषा बंसल को 16.12.2002 के अपराह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा. (श्रीमती) मनीषा बंसल को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

## कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 मार्च 2003

सं. 27-2512/2003-स्था.-I--राष्ट्रपति, श्री ए.के. झा, आई.ए.एस. (आं. प्र. 69) को कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग) में तिलहन एवं दलहन प्रौद्योगिकी मिशन में 28 फरवरी, 2003 के अपराह्न से आगामी आदेशों तक 22,400-525-24,500 रु. के वेतनमान में अपर सचिव व मिशन निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

सरस्वती प्रसाद, निदेशक (का.)

## मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(महिला एवं बाल विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 मार्च 2003

सं. 4-1/2003-प्रशासन I--राष्ट्रपति, श्रीमती सुनीला बसंत, भा.प्र.से. (झारखंड : 70) को 31 जनवरी, 2003 के अपराह्न से आगामी आदेश होने तक 22,400-525-24,500 के वेतनमान में अपर सचिव के रैंक में राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य-सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर. एस. शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 26 मार्च 2003

सं. 4-4/2003-प्रशासन-1--राष्ट्रपति, श्री पी. के. श्रीवास्तव, भा.प्र.से. (ए.एम. : 88), को दिनांक 25.3.2003 की पूर्वाह्न से उनके पांच वर्ष के केन्द्रीय कार्यकाल, अर्थात् 5.11.2003 तक की शेष अवधि के लिए अथवा मंत्री के निजी सहायक के रूप में उनके बने रहने तक, अथवा आगामी आदेश होने तक, जो भी पहले हो, 15,100-400-18,300/- रु. के वेतनमान में निदेशक के स्तर पर मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री, श्रीमती जसकौर मोणा (म.बा.वि.) के निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

आर. एस. शर्मा, अवर सचिव

## सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च 2003

सं. 11017/6/95-हिन्दी--केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली के निम्नलिखित आंचलिक कार्यालयों को, जिनके 80% कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :--

1. आंचलिक कार्यालय, लखनऊ
2. आंचलिक कार्यालय, पटना
3. आंचलिक कार्यालय, चंडीगढ़

सत्येन्द्र प्रकाश, उप सचिव

## संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 24 मार्च 2003

सं. ए. 39013/1/1997-प्रशा-I--राष्ट्रपति एतद्द्वारा श्रीमती अलियम्मा जाँय, कर्मचारी कोड सं. 3104 का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, पुणे में वैज्ञानिक-बी के पद से त्यागपत्र दिनांक 2 जून, 1997 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से कार्यमुक्त किया जाता है।

पी.एस. पिल्लै, उप निदेशक (प्रशा.)

(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 31 मार्च 2003

सं. पीएफ. 5097/प्रशा-1--दूरसंचार विभाग के सांख्यिकी अधिकारी श्रीमती हरभजन कौर अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर दिनांक 31.03.2003 (अपराह्न) से सेवा मुक्त हो जाएंगे।

मनमोहन सिंह, अवर सचिव (प्रशा.-1)

(डाक विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 3 मार्च 2003

विषय : सहायक निदेशक (भर्ती), जीसीएस समूह "ख" के पद पर पदोन्नति एवं तैनाती।

सं. 9-84/2002-एसपीजी--महानिदेशक (डाक), सर्किल कार्यालयों में कार्यरत निम्नलिखित कर्मचारियों को कार्यालय अधीक्षक के ग्रेड में 6500-200-10500/- रु. के वेतनमान में जीसीएस समूह "ख" में सहायक निदेशक (भर्ती) के ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से और अगले आदेशों तक सहर्ष पदोन्नत करते हैं। प्रत्येक के सामने, उनकी तैनाती का स्थान दर्शाया गया है।

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती सर्किल	पदोन्नति के बाद तैनाती सर्किल
----------	----------------	-----------------------	-------------------------------

(सर्वश्री)

- |    |                   |                |                |
|----|-------------------|----------------|----------------|
| 1. | एम. सानाऊलाह      | जम्मू व कश्मीर | जम्मू व कश्मीर |
| 2. | हरबंस सिंह भाटिया | पंजाब          | पंजाब          |

2. विभाग में जीसीएस समूह "ख" में सहायक निदेशक (भर्ती) के चार संस्वीकृत पद अब से रोडेशन आधार पर भरे जाएंगे तथा इस निदेशालय के दिनांक 21.09.2001 के पत्र सं. 31-23/91-पीई-II में स्पष्ट किए गए अनुसार उस सर्किल को अंतर्गत किए जाएंगे जिससे पदोन्नत अधिकारी संबंधित है। संबंधित सर्किल में पद के पदधारक के सेवानिवृत्त होने पर वह पद समाप्त हो जाएगा।

3. सतर्कता/अनुशासनिक मामला, यदि कोई हो।

इस कार्यालय के का.जा.सं. 25-19/88-एसपीजी दिनांक 13.10.92 के साथ परिचालित कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.जा.सं. 22011/4/91-स्था.(ए) दिनांक 14.9.92 में उल्लिखित किस्म का कोई सतर्कता/अनुशासनिक मामला यदि कर्मचारी के विरुद्ध लंबित हो, तो उसे इस कार्यालय से विशिष्ट आदेश प्राप्त किए बिना तैनाती के लिए कार्यमुक्त नहीं किया जाना चाहिए। वह कर्मचारी जिसके विरुद्ध दण्ड चालू है, उसे दण्ड की मियाद समाप्त होने से पूर्व पदोन्नत नहीं किया जाना चाहिए। इस संबंध में एक रिपोर्ट तत्काल भेजी जाए।

4. वेतन निर्धारण के लिए विकल्प

यदि अधिकारी एफआर 22(1) (क) (1) के अंतर्गत वेतन निर्धारण के लिए तारीख चुनने का विकल्प देना चाहता है, तो उसे पदोन्नति की तारीख से एक माह के अंदर विकल्प देना होगा।

5. कृपया चार्ज रिपोर्ट इस कार्यालय को यथासमय भेज दी जाए।

आर.एस. यादव, सहायक महानिदेशक (एसजीपी)

दिनांक 13 मार्च 2003

सं. 9-14/2001-एसपीजी--महानिदेशक (डाक) सहर्ष डाक सेवा समूह "ख" में निम्नलिखित अधिकारियों को उनके आसन्न कनिष्ठों के कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एफआर-22 के एपीएस के खंड-II के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर प्रोफार्मा पदोन्नति (7500-250-12000 रु.) प्रदान करते हैं :--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	जिस तारीख से लागू है
	(सर्वश्री)	
1.	जोगिन्दर सिंह	25.09.2002
2.	जनार्दन	18.11.2002
3.	के. थानिया नाईक	24.09.2002
4.	एस.एन. दवे	01.11.2002
5.	ए.टी. पंचोली	18.11.2002

आर. एस. यादव, सहायक महानिदेशक (एसजीपी)

पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय

(संस्कृति विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 मार्च 2003

सं. एफ. 7-3/99-एम. 1--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा श्री संजीव कुमार सिंह, सहायक संग्रहाध्यक्ष (प्रकाशन) के चयन के परिणामस्वरूप उन्हें 8,000-13,500/- रु. के वेतनमान में 28 फरवरी, 2003 से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय में प्रतिनियुक्ति पर उप संग्रहाध्यक्ष (प्रदर्शनी प्रकोष्ठ) समूह 'क' राजपत्रित अनुसचिवीय पद पर नियुक्त करते हैं।

एम. सुब्बारायन, अवर सचिव

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 मार्च 2003

सं. आर.डब्ल्यू/ए.पी.(सी.ई.)/310 (खंड-II)--राष्ट्रपति, श्री ए. एन. ढोडपकर, अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) को मुख्य अभियन्ता (सिविल) के पद पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली में रु. 18400-500-22400/- के वेतनमान पर दिनांक 14.3.2003 (पूर्वाह्न) से नियमित आधार पर अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

बी.बी. जैन, अवर सचिव

सं. आर.डब्ल्यू/ए.पी.(सी.ई.)/37 (खंड-III)--राष्ट्रपति, श्री वी.के. सचदेवा, अधीक्षण अभियन्ता (यांत्रिक) को मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक) के पद पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली में रु. 18400-500-22400/- के वेतनमान पर दिनांक 20.3.2003 (पूर्वाह्न) से नियमित आधार पर अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

बी.बी. जैन, अवर सचिव

सं. आर.डब्ल्यू/ए.पी.(सी.ई.)/331 (खंड-III)--राष्ट्रपति, श्री अशोक वासन, अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) को मुख्य अभियन्ता (सिविल) के पद पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली में रु. 18400-500-22400/- के वेतनमान पर दिनांक 14.3.2003 (पूर्वाह्न) से नियमित आधार पर अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

बी.बी. जैन, अवर सचिव

पोत परिवहन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 मार्च 2003

सं. ए-12028/2/2003-स्था.--राष्ट्रपति जी, श्री रमाकान्त दीक्षित, सहायक मुख्य अभियन्ता, भारत सरकार टंकसाल (वित्त मंत्रालय) नौएडा, को पोत परिवहन मंत्री (श्री शत्रुघ्न सिन्हा) के अपर निजी सचिव के रूप में 30.1.2003 (अपराह्न) से 10000-15200 रु. के वेतनमान में सह-अवसानी आधार पर या आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

सुभाष चन्द, अवर सचिव

(नौवहन पक्ष)

नई दिल्ली, दिनांक 26 मार्च 2003

सं. ए-12026/1/2003-एमए--राष्ट्रपति, श्री जी. एस. साहनी, भा. प्र.से. (मध्य प्रदेश-71) को दिनांक 10 मार्च 2003 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक भारत सरकार के अपर सचिव की श्रेणी और वेतनमान में नौवहन महानिदेशालय, मुम्बई में नौवहन महानिदेशक नियुक्त करते हैं।

आर. एस. बिष्ट, अवर सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 मार्च 2003

सं. 7/12/99-भूजल-1--राष्ट्रपति, श्रीमती संध्या महापात्रा को केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड में 8000-275-13,500/- रुपए के वेतनमान पर वैज्ञानिक 'बी' के ग्रेड में कनिष्ठ जल भू-वैज्ञानिक के पद पर दिनांक 16.12.2002 (अपराह्न) से अस्थाई आधार पर नियुक्त करते हैं।

वे पदभार ग्रहण करने की तारीख से दो वर्षों की परीक्षा अवधि में होंगी जिसे आवश्यक समझे जाने पर सक्षम प्राधिकारी के विवेक से बढ़ाया जा सकता है।

सोहन सिंह सैनी, अवर सचिव

## PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110011, the 25th March 2003

No. A.22012/1/2003-PMA—The President is pleased to extend the Central Deputation tenure of Shri SN Sahai, IAS (AGMU : 86), Director, in the Prime Minister's Office for a period of five months beyond 30.3.2003 i.e. up to 30.8.2003.

P. K. ROY, Under Secretary

## RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 28th March 2003

No. RS/36/2003/9-Perl.—The appointment of Dr. Yogendra Narain, IAS (Retd.), former Secretary, Ministry of Defence, Government of India as Secretary-General, Rajya Sabha *vide* Notification No. RS/2(i)/2002/61-Perl. dated the 29th August, 2002 is in the rank and status of Cabinet Secretary.

P. R. GUHA ROY, Deputy Secretary

The 31st March 2003

No. RS/6(iii)/2003/10/Perl.—The services of Shri R. C. Pandey appointed as Private Secretary on co-terminus basis in the personal staff of Hon'ble Leader of Opposition, Rajya Sabha stand terminated with effect from the afternoon of the 31st March, 2003.

P. R. GUHA ROY, Deputy Secretary

## LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 24th March 2003

No. PF. 1584(3)/AN-1/GN-4911/2003—The Speaker is pleased to appoint Shri Ashok Sarin, Deputy Secretary in the scale of pay of Rs. 12,750—16,500 to the grade of Director in the scale of pay Rs. 15,100-400-18,300 on ad-hoc basis with effect from 13th March, 2003 until further orders.

RAMAUTAR RAM, Joint Secretary

## CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 1st April 2003

No. A-19013/6/2001-Ad.I—The President is pleased to appoint Shri Shatrughna Singh, IAS(UL : 83) as Joint Secretary in the Cabinet Secretary with effect from the afternoon of 31st March, 2003. The period of his normal central deputation tenure as Joint Secretary would be upto 26.11.2006 or until further orders whichever event takes place earlier.

SUNIL MISHRA, Deputy Secretary

No. A-19014/01/2003-Ad.I—The President is pleased to appoint Shri B. B. Jain, Under Secretary in Cabinet Secretariat with effect from the forenoon of 1st April, 2003. The period of his tenure in Cabinet Secretariat will be seven years w.e.f. 1st April, 2003, or until further orders whichever event takes place earlier.

SUNIL MISHRA, Deputy Secretary

## DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560 094, the 13th March 2003

No. 3/1(2)/2003-I—The President is pleased to accept the resignation from service of Shri Asish M.R., Scientist/Engineer-SC in the Vikram Sarabhai Space Centre, thiruvananthapuram of the Department of Space with effect from the afternoon of 31.01.2003.

K. S. RAMACHANDRA, Under Secretary

No. 3/1(2)/2003-I—Consequent on acceptance of Voluntary retirement the following Officers in the Vikram Sarabhai Space Centre, thiruvananthapuram of the Department of Space have relinquished the charge of the post with effect from the forenoon of the dates mentioned against each :

Sl. No.	Name	Post	Date of relief
	Shri/Smt/Kum		
1.	Dr. K. S. Viswanathan	Scientist/Engineer-SG	10.2.2003
2.	C.K. Keraladasan	Sr. Accounts Officer	03.2.2003

K. S. RAMACHANDRA, Under Secretary

No. 3/1(2)/2003-I—Consequent on attaining the age of Superannuation the following Officers in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space have relinquished the charge of the post with effect from the afternoon of the 31.01.2003 :

Sl. No.	Name	Post
	Shri/Smt/Kum	
1.	S.A. Palaniswami	Scientist/Engineer-H
2.	I. V. Appa Rao	Scientist/Engineer-H
3.	S. Krishnamurthy	Scientist/Engineer-SG
4.	M. V. Jose	Scientist/Engineer-SE
5.	James Mathew	Head Purchase & Stores

K. S. RAMACHANDRA, Under Secretary

No. 4/1(1)/2003-I—The President is pleased to appoint on promotion Shri K. Balakrishnan as Head, Purchase and Stores in the Satish Dhawan Space Centre, SHAR, Sriharikota of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 3.2.2003 and until further orders.

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 5/1(1)/2003-I—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientist/Engineers to the posts mentioned against each in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.01.2003 and until further orders :—

Sl. No.	Name	Post from which promoted	Post to which promoted
	Shri/Smt./Kum.		
1.	L. M. Gangrade	Scientist/ Engineer-SG	Scientist/ Engineer-G
2.	Nanjundaswamy T. S.	Scientist/ Engineer-SG	Scientist/ Engineer-G
3.	T. K. Goswami	Scientist/ Engineer-SG	Scientist/ Engineer-G
4.	J. A. Kamalakar	Scientist/ Engineer-SG	Scientist/ Engineer-G
5.	K. Kanakaraju	Scientist/ Engineer-SG	Scientist/ Engineer-G
6.	Sadananda Kini	Scientist/ Engineer-SE	Scientist/ Engineer-SF
7.	H. S. Vasudeva- murthy	Scientist/ Engineer-SE	Scientist/ Engineer-SF
8.	C. N. Umapathy	Scientist/ Engineer-SE	Scientist/ Engineer-SF
9.	Keshava Murthy K. A.	Scientist/ Engineer-SE	Scientist/ Engineer-SF

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 5/1(1)/2003-I—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers-SG as Scientists/Engineers-G in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 1.07.2002 and until further orders :—

Shri/Smt./Kum.

1. N. S. Gopinath
2. T. L. Danabalan
3. S. T. Venkataramanan

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 5/1(1)/2003-I—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers-H as Outstanding Scientists in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.01.2003 and until further orders :—

Shri/Smt./Kum.

1. V. R. Katti
2. H. Narayana Murthy
3. Dr. T. K. Alex
4. Dr. Surendra Pal

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 5/1(1)/2003-I—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers to the posts mentioned against each in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.01.2003 and until further orders :—

Sl. No.	Name	Post from which promoted	Post to which promoted
	Shri/Smt./Kum.		
1.	Narasimhalu Naidu S. M.	Scientist/ Engineer-SC	Scientist/ Engineer-SD
2.	R. Janardhan	Scientist/ Engineer-SC	Scientist/ Engineer-SD
3.	R. Subramanya	Scientist/ Engineer-SC	Scientist/ Engineer-SD
4.	K. Ganesh Kumar	Scientist/ Engineer-SC	Scientist/ Engineer-SD
5.	Munegowda	Scientist/ Engineer-SB	Scientist/ Engineer-SC
6.	S. Nataraj	Scientist/ Engineer-SB	Scientist/ Engineer-SC

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 5/1(1)/2003-I—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers-SD as Scientists/Engineers-SE in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.01.2003 and until further orders :—

Shri/Smt./Kum.

1. M. L. Subramanya
2. S. Subramanya
3. K. Haridas
4. Francis Thomas

- Shri/Smt./Kum.  
5. P. Govindan  
6. A. Hanumantharayappa  
7. Sadashiv Dwivedi

K. S. RAMACHANDRA, Under Secretary

No. 5/1(1)/2003-I—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers-SF as Scientists/Engineers-SG in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.01.2003 and until further orders :—

- Shri/Smt./Kum  
1. S. Venkateswara Rao  
2. H. S. Rama Rao  
3. K. C. S. Chowdary  
4. A. Suresh  
5. G. V. C. Rajan  
6. N. Viswanatha  
7. G. Mohanakrishnan  
8. M. Venkata Rao  
9. Dr. P. K. Maharana  
10. Dr. Anand Kumar Sharma

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 5/1(2)/2003-I—Consequent on acceptance of Voluntary retirement, Prof. A. V. Patki, Outstanding Scientist in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space has relinquished the charge of the post with effect from the forenoon of 01.02.2003.

K. S. RAMACHANDRA, Under Secretary

No. 6/1(1)/2003-I—The President is pleased to appoint on promotion Shri V. A. Patel, Scientist/Engineer-SD as Scientist/Engineer-SE in the Space Applications Centre, Ahmedabad of the Department of Space in officiating capacity with effect from the forenoon of 01.01.2003 and until further.

K. S. RAMACHANDRA, Under Secretary

No. 8/1(1)/2003-I—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers to the posts mentioned against each in the ISRO Telemetry Tracking and Command Network, Bangalore of the Department of Space

in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.01.2003 and until further orders :—

Sl. No.	Name	Post from which promoted	Post to which promoted
	Shri/Smt./Kum.		
1.	Mirza Mohammad Zaheer	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
2.	Ravindra Singh	Scientist/Engineer-SB	Scientist/Engineer-SC
3.	Ch. Venkata Ramana	Scientist/Engineer-SB	Scientist/Engineer-SC

K. S. RAMACHANDRA, Under Secretary

No. 10/1(1)/2003-I—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers-SD as Scientists/Engineer-SE in the EMD, NRSA, Hyderabad of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.01.2002 and until further orders :—

- Shri/Smt./Kum  
1. D. V. Sesha Sai  
2. T. Harinadha Tagore

K. S. RAMACHANDRA, Under Secretary

No. 10/1(1)/2003-I—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers to the posts mentioned against each in the CED, Bangalore of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each and until further orders :—

Sl. No.	Name	Post from which promoted	Date
	Shri/Smt./Kum.		
1.	G. N. K. Kumar	Scientist/Engineer-SF	01.01.2002
2.	B. Virupakshappa	Scientist/Engineer-SF	01.01.2002
3.	B. K. Nanjundan	Scientist/Engineer-SE	01.01.2002
4.	K.A.S. Subramanyam	Scientist/Engineer-SE	01.07.2002
5.	D. Kuppuswamy	Scientist/Engineer-SE	01.01.2003
6.	S. Thandapani	Scientist/Engineer-SD	01.01.2003

K. S. RAMACHANDRA, Under Secretary

No. 10/1(1)/2003-I—The President is pleased to appoint on promotion Shri R. J. Ajwalia Scientist/Engineer-SD in the CED, SAC, Ahmedabad of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.01.2003 and until further orders.

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 10/1(1)/2003-I—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers to the posts mentioned against each in the VSSC, Thumba of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.01.2003 and until further orders:—

Sl. No.	Name	Post from which promoted	Post to which promoted
	Shri/Smt./Kum.		
1.	A. V. Scaria	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
2.	Lorance. A. J.	Scientist/Engineer-SB	Scientist/Engineer-SC

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 10/1(1)/2003-I—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers to the posts mentioned against each in the CED, SDSC, Sriharikota of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each and until further orders:—

Sl. No.	Name	Post from which promoted	Date
	Shri/Smt./Kum.		
1.	S. Doss	Scientist/Engineer-SE	01.01.2002
2.	V. V. Ramanadham	Scientist/Engineer-SE	01.01.2002
3.	S. Vijayananda Rao	Scientist/Engineer-SE	01.01.2002
4.	Ganapathi	Scientist/Engineer-SD	01.01.2002
5.	P. S. Kumara Swamy	Scientist/Engineer-SD	01.01.2002
6.	KKSVM Prakasa Rao	Scientist/Engineer-SD	01.01.2003
7.	R. Ramakrishna Murthy	Scientist/Engineer-SC	01.01.2003
8.	P. Sasidhar	Scientist/Engineer-SC	01.01.2002

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

## PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 3rd February 2003

No. F.6(1841)/2002-Adm.I—In pursuance of the Ministry of Statistics & Programme Implementation's O.M. No. 12016/5/98-ISS dated 21.1.2003 extending the adhoc promotion of JAG officers of ISS upto 30.6.2003 and in continuation of Planning Commission's Notification of even number dated 8.1.2002, the adhoc appointment of Shri S.K. Das, as a JAG officer of ISS and as Deputy Adviser in the Planning Commission is extended upto 30.6.2003 or until further orders, whichever is earlier.

K.K. CHHABRA, Under Secy.

The 13th February 2003

No. A-12025/27/2002-Adm.I—The President is pleased to appoint Dr. S. K. Khanduri, IFS (KL : 84) as Director (Forestry) in the Planning Commission in the scale of pay of Rs. 16400-20000 (as personal to him) on Central Deputation Basis w.e.f. 10.02.2003 (FN) and upto 13.01.2007, or until further orders, whichever is earlier.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

The 18th February 2003

No. F.6(1467)/91-Adm.I—In pursuance of the Department of Economic Affairs' order No. 13015/1/2002-IES dated 30.1.2003, Smt. Manjula Krishnan, an NFSG officer of IES and Director, Planning Commission is relieved of her duties w.e.f. 18.02.2003 (AN) to join the Ministry of Road Transport & Highways, New Delhi.

K.K. CHHABRA, Under Secy.

The 20th February 2003

No. F.6(1704)/97-Adm.I—Consequent on her posting in the Planning Commission vide Deptt. of Economic Affairs' Order No. 13015/1/2002-IES dated 30.1.2003, Smt. Rupa Dutta, an NFSG officer of IES has assumed charge as Director in the Planning Commission in the scale of pay of Rs. 14300-400-18300 w.e.f. 19.02.2003 (FN).

K.K. CHHABRA, Under Secy.

The 12th March 2003

No. A-44014/1/2002-Adm.II—Consequent upon his selection for appointment as Deputy Adviser in the Ministry of Statistics & programme Implementation on ad-hoc deputation basis for a period of six months, the services of Shri Surinder Singh, SRO, Planning Commission, are placed at the disposal of the Ministry of Statistics & Programme Implementation w.e.f. the afternoon of 12.3.2003.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

The 31st March 2003

No. F.6(1685)/96-Adm.I—On attaining the age of superannuation, Shri Narendra Pal, Deputy Adviser (Energy Policy), Planning Commission retires from Government service w.e.f. 31.3.2003 (A.N.) and consequently he has relinquished charge from that date.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME  
IMPLEMENTATION

New Delhi, the 21st March 2003

No. 12018/1/2002-ISS—On attaining the age of superannuation, Shri Dina Nath, a STS level officer of Indian Statistical Service, posted as Deputy Director in CSO, in M/o Statistics & P.I. retired from service on 31.01.2003 (AN).

K. B. ARORA, Under Secy.

(NATIONAL SAMPLE SURVEY ORGANISATION)  
DATA PROCESSING DIVISION HEADQUARTERS

Kolkata-700 108, the 14th February 2003

No. 38011/1/01-CSW—Shri Hriday Bhattacharjee, Data Processing Assistant-I, Data Processing Centre, National Sample Survey Organisation, Nagpur, retired from Government Service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 31st December, 2002.

P. SREEDHARAN, Dy. Director (Admn.)  
Head of Office

No. 38011/1/01-CSW—Shri Manik Mazumdar, Data Processing Assistant-I, Data Processing Division Headquarters, National Sample Survey Organisation, Kolkata, retired from Government Service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 31st December, 2002.

P. SREEDHARAN, Dy. Director (Admn.)  
Head of Office

No. 38011/1/01-CSW—Shri Narayan Chandra Das, Data Processing Assistant-I, Data Processing Division Headquarters, National Sample Survey Organisation, Kolkata, retired voluntarily from Government Service under Rule 48(1)(a) of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 with effect from the forenoon of 1st November, 2002.

P. SREEDHARAN, Dy. Director (Admn.)  
Head of Office

No. A-38011/1/01-CSW—Shri R.K. Paul, Accounts-cum-Administrative Officer, Data Processing Centre, National Sample Survey Organisation, New Delhi, retired from Government Service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 31st December, 2002.

P. SREEDHARAN, Dy. Director (Admn.)  
Head of Office

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE  
(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 24th March 2003

No. A-12025(i)/2/2002-Admn.I(L.D.)—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri Udaya Kumara in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice to officiate as Assistant Legislative Counsel (Grade IV of Indian Legal Service) in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200 in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice with effect from the afternoon of 20th March, 2003 and until further orders.

Shri Udaya Kumara will be on probation for a period of two years with effect from 20th March, 2003.

M. DAS, Dy. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 25th March 2003

No. A-32014/12/2001-Ad.I—The President is pleased to continue the adhoc appointment of the following Personal Assistants of Central Secretariat Stenographers' Service Cadre of Ministry of Home Affairs of Merged Garde 'A' & 'B' purely on adhoc basis for a further period upto 30.06.2003 or till regular candidates become available or until further orders whichever is earlier :—

S. No. Name of the Officer

- | S. No. | Name of the Officer  |
|--------|----------------------|
|        | S/Shri               |
| 1.     | Smt. Prem Gossain    |
| 2.     | Smt. Srividya Ramesh |
| 3.     | Smt. P. Gayathri     |
| 4.     | D.S. Garg            |
| 5.     | Baldev Singh         |
| 6.     | Parveen Dutta        |
| 7.     | K.L. Kapoor          |
| 8.     | V.S. Bhandari        |
| 9.     | Madhu Budhwar        |
| 10.    | Manikandan Nair      |
| 11.    | Jaswinder Singh      |
| 12.    | Ms. Aruna Upadhyay   |

S.K. BHATNAGAR, Under Secy.



The 28th March 2003

No. 20/G/2476-Ad.I—The President is pleased to appoint Shri Rakesh, IAS (MT:72), as Joint Secretary in the Ministry of Home Affairs with effect from the forenoon of 17th March, 2003, until further orders.

S.K. BHATNAGAR, Under Secy.

The 2nd April 2003

No. A. 35014/36/95-Ad.V—The President is pleased to extend the tenure of deputation of Shri K. N. Uniyal, a Grade IV Officer of the Central Secretariat Official Language Service, Senior Hindi Translator in the Ministry of Home Affairs, in the post of Research Officer (Imp.) in the Department of Official Language for a period of 6 months from 26.2.03 upto 26.8.03 (For 8th year) or until further orders.

S.K. BHATNAGAR, Under Secy.

## NATIONAL CRIME RECORDS BUREAU

New Delhi-110066, the 24th March 2003

No. 34/1/2003-Ad.II/NCRB.—The President of India is pleased to appoint Shri Munesh Pal Sharma, DFO (Cipher Computer), SSB Hqrs., New Delhi to the post of Junior Staff Officer in the Scale of Pay of Rs. 8000-275-13500/- in the Computer & Systems Division of National Crime Records Bureau with effect from 17th January, 2003 (FN) on deputation basis for a period of 3 years or until further orders.

B.S. DHUPIA, Asstt. Director (Admn.)

No. 34/2/2003-Ad.II/NCRB—The President of India is pleased to appoint Shri Pawan Kumar, SI(FP), NCRB on transfer (absorption) basis to the post of Junior Staff Officer in the Computer & Systems Division in the National Crime Records Bureau in the pay scale of Rs. 8000-275-13500/- w.e.f. the forenoon of 13th January, 2003 until further orders.

B.S. DHUPIA, Asstt. Director (Admn.)

## MINISTRY OF FINANCE &amp; COMPANY AFFAIRS

(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 26th March 2003

No. 1/2003 (F. No. 4/24/2002-Ad.IC)—President is pleased to appoint Shri R. N. Das, IAS (GJ : 71) as Director of Enforcement in the Department of Revenue in the rank and pay of Additional Secretary to the Government of India with effect from the afternoon of 24th February, 2003 till further orders.

ANIRUDH TEWARI, Dy. Secy.

3—12 GI/2003

New Delhi, the 10th March 2003

No. 21 : (F.No. A.19013/4/2003-Ad.I)—The President is pleased to appoint Shri Dinesh Kapila, a Grade-III officer of IES as Under Secretary in the Department of Revenue w.e.f. 4.3.2003 (AN) and until further orders. He is posted as Under Secretary (Sales Tax).

PREETI PANT, Under Secy.

## DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

New Delhi, the 20th March 2003

No. A. 12011/2/2002-Admn.II—The President is pleased to appoint Shri Govind Mohan, IAS (SK : 89) as Deputy Secretary in the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance & Company Affairs, with effect from the forenoon of 5th March, 2003 for a period of two years or until further orders, whichever event takes place earlier.

I. C. KAMBOJ, Under Secy.

## BANKING DIVISION

New Delhi, the 25th March 2003

No. A-19011/192/96-Estt.—The President is pleased to appoint Shri G. R. Summan, CSS, Deputy Secretary as Director in the Department of Economic Affairs in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300/- by upgrading the post of Deputy Secretary, held by him, to the level of Director, as a measure personal to him, with effect from the forenoon of 24th March, 2003 upto the date of his superannuation or until further orders, whichever event takes place earlier.

D. P. BHARDWAJ, Under Secy.

New Delhi, the 25th March 2003

No. 15/3/03-DRT—The President is pleased to appoint Sh. J. B. Sharma, Section Officer, Department of Industrial Policy & Promotion, Ministry of Commerce & Industry to the post of Recovery Officer in the office of Debts Recovery Tribunal-II, Delhi on deputation basis in the pay scale of Rs. 10,000-15,200 for a period of three years w.e.f. 18.2.2003 (F.N.) or until further orders, whichever is earlier.

S. P. S. SANGWAN, Under Secy.

## INDIA GOVERNMENT MINT

Noida, the 25th March, 2003

F. No. NM/140/1/4(19)/2002-03/Adm. 1936—Shri S. M. Kashyap, Security Inspector, India Government Mint, Noida is hereby promoted to the post of Security Officer (Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial) in the pay scale of Rs. 6500-200-10500 with effect from 17th March, 2003 (F.N.) purely on ad hoc basis for a period of one year or until further orders.

2. The ad hoc promotion does not confer any right on Shri S. M. Kashyap for a regular promotion and he may be reverted to his lower post at any time.

P. K. DAS, General Manager

F. No. NM/140/1/4(21)/2002-03/Adm. 1908—Having been relieved from Principal Accounts Office, Ministry of Urban Development, Nirman Bhawan, New Delhi, vide their Office Order No. 59(A)/2003 (F. No. A-35010/3/Dep/2003/LC/7399-7408), dated 7th March, 2003, Shri K. L. Verma, Sr. Accountant is hereby appointed to the post of Bullion Officer, Group 'B' (Gazetted) in the pay scale of Rs. 7450-225-11500 in India Government Mint, Noida on deputation basis for a period of three years from 10th March, 2003 or till further orders whichever is earlier.

P. K. Das, General Manager

## MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 4th March 2003

No. A-5(4)/2003/EPZ—The President is pleased to appoint Shri B. Mohan, Appraiser, Custom House, Chennai, at the same post in the Office of the Development Commissioner, Madras Special Economic Zone, Chennai, in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from 3.2.2003 (AN), on deputation basis, for a period of 3 years, or until further orders.

V. RAMAKRISHNAN, Under Secy.

## DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE

New Delhi, the 26th March 2003

No. 07/2003/2/2/2002/HRD-I/688—Consequent on the recommendation of the Departmental Promotion Committee, Director General of Foreign Trade is pleased to appoint the following officers as Foreign Trade Development Officer (Gazetted Group 'B') (Non-CSS) in this Directorate with effect from dates mentioned under, read together with transfer/posting Office Order No. 36/2003 dated 26.03.2003.

Sl. No.	Name of Officer	With effect from
1.	Shri M. N. Tonape	Immediate effect
2.	Smt. Jaya V. Nair	01.04.2003
3.	Shri P. C. Ravindran	01.04.2003

A. K. M. CHAKANKAR  
Joint Director General of Foreign Trade

## MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 24th March 2003

No. 05/2003 (A-12022/01/2003-Estt.)—The President is pleased to appoint Smt. Kasturi G. Menon, IAS (WB : 69), as Development Commissioner (Handlooms) under the Ministry of Textiles in the rank and pay of Additional Secretary with effect from the forenoon of 3rd March, 2003, until further orders.

G. S. BASRAN, Under Secy.

## MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 20th March 2003

No. A-19011/1/2003-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Prabh Das, IAS (WB : 81) as Joint Secretary in the Ministry of Petroleum & Natural Gas with effect from 20.3.2003 (FN) for a period of 5 years or until further orders whichever event takes place earlier.

2. Shri Prabh Das has assumed the charge of the office of the Joint Secretary in the Ministry of Petroleum & Natural Gas on the aforesaid date.

S. S. KEMWAL, Under Secy.

## MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 24th March 2003

No. 12012/1/2003-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Madiray Purty, resident of Mohna Toli, PS Khunti, Dist. Ranchi, Jharkhand as 1st PA to the Minister of Coal (Shri Kariya Munda) in the pay scale of Rs. 6,500-10,500 with effect from 30th January, 2003 (FN). His appointment will be co-terminus with the tenure of the Minister or till the Minister requires his services, whichever is earlier.

PARVATI KAUTIA, Under Secy.

## MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY)

New Delhi-110016, the 24th March 2003

No. A. 11013/01/2001-Admn.1(A)—The President is pleased to appoint Shri S. C. Poddar IAS (AGMU : 87) to the post of Private Secretary in the scale of pay of Rs. 14,300-400-18,300/- in the personal staff of Hon'ble Minister for Science & Technology with effect from 24.03.2003 (FN).

2. The appointment of Shri S. C. Poddar, Private Secretary would be for a period of three years or till he ceases to function as Private Secretary to Minister or until further orders, whichever event occurs earliest.

3. He will draw his pay etc. in his respective grade as per his entitlement under normal rules.

T. N. DWIVEDI, Under Secretary

## MINISTRY OF ENVIRONMENT &amp; FORESTS

New Delhi-110003, the 25th March 2003

No. A-12012/9/95-P.II—In pursuance of Department of Official Language's office order No. 5/14/2002-OL (Service) dt. 13.12.2002, the President is pleased to appoint Shri Narendra Singh who was holding the post of Assistant Director (OL) on ad-hoc basis in this Ministry as Assistant Director (OL) on regular basis in the scale of pay Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from 13.12.2002.

ZAFRUL ISLAM, Under Secy.

## MINISTRY OF HEALTH &amp; FAMILY WELFARE

New Delhi, the 18th March 2003

No. A. 11013/1/2003-Estt.I—The competent authority is pleased to appoint Shri Suresh Sharma, CSS, an Under Secretary in the Office of Principal Scientific Adviser to Government of India, as Additional Private Secretary to Minister for Health & Family Welfare (Smt. Sushma Swaraj) in the Ministry of Health & Family Welfare, New Delhi with effect from the afternoon of 11.2.2003.

The appointment of Shri Suresh Sharma will be on co-terminus basis or till he ceases to function as Additional Private Secretary to Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest.

C. M. SHARMA, Under Secy.

## (DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi-110011, the 25th March 2003

No. A. 12025/24/2002-CHS.IV—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Bhagwati Prasad Sharma to the post of Specialist Grade-II (Orthopaedic) of the Non-Teaching Specialist Sub-Cadre of Central Health Service on probation and to post him at Safdarjung Hospital, New Delhi with effect from the forenoon of the 30th January, 2003 and until further orders.

U. C. NANGIA, Dy. Secy.

New Delhi-110011, the 21st March 2003

No. A. 38011/1/2003-CHS-I—Consequent upon her retirement on attaining the age of superannuation Dr. (Mrs.) L. B. Jethra of regularised Cadre of Central Health Service holding the post of CMO(NFSG) under Central Govt. Health Scheme, Delhi relinquished the charge of the post on the 31.12.2002 (AN).

4-12GI/2003

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

The 25th March 2003

No. A-12025/37/2001-CHS-I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. (Mrs.) Manisha Bansal to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500 in a temporary capacity with effect from afternoon of the 16th December 2002 until further orders. Dr. (Mrs.) Manisha Bansal is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Delhi.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

## MINISTRY OF AGRICULTURE

## (DEPARTMENT OF AGRICULTURE &amp; COOPERATION)

New Delhi, the 4th March 2003

No. 27-2512/2003-Estt. I—The President is pleased to appoint Shri A. K. Jha, IAS (AP : 69) as Additional Secretary and Mission Director, Technology Mission on Oilseeds and Pulses in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture & Cooperation) in the scale of pay of Rs. 22,400-525-24,500/- with effect from the afternoon of 28th February 2003, until further orders.

SARASWATI PRASAD, Director (Pers.)

## MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

## (DEPARTMENT OF WOMEN &amp; CHILD DEVELOPMENT)

New Delhi, the 21st March 2003

No. 4-1/2003-Admn.—The President is pleased to appoint Smt. Sunila Basant, IAS (JH : 70), as Member-Secretary, National Commission for Women, in the rank of Additional Secretary in the scale of pay of Rs. 22,400-525-24,500/- with effect from the afternoon of 31.1.2003 until further orders.

R. S. SHARMA, Under Secy.

The 26th March 2003

F. No. 4-4/2003-Admn.—The President is pleased to appoint Shri P.K. Srivastava, IAS (AM : 88), as Private Secretary to Minister of State for Human Resource Development (Smt. Jas Kaur Meena) in the Department of Women and Child Development at the level of Director in the scale of pay of Rs. 15,100-400-18,300/- for the balance period of his five year central tenure, i.e., upto 5.11.2003, with effect from the forenoon of 25.03.2003 or till he ceases to function as Private Secretary to the Minister, or until further orders, whichever event takes place first.

R.S. SHARMA  
Under Secy.

## MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE &amp; EMPOWERMENT

New Delhi-1, the 31st March 2003

No. E-11017/6/95-Hindi—In pursuance of Sub-rule (4) of the Rule 10 of the Official Language (Use For Official Purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following Zonal offices of the National Scheduled Castes Finance and Development Corporation, New Delhi where 80% staff has acquired working knowledge of Hindi:—

1. Zonal Office, Lucknow
2. Zonal Office, Patna
3. Zonal Office, Chandigarh.

SATYENDRA PRAKASH, Dy. Secy.

## MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

## NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110003, the 24th March 2003

No. A-39013/1/1997-Admn.I—President is pleased to accept the resignation of Smt. Aleymma Joy, Emp-Code-3104, from the post of Scientist 'B', NIC, Pune, with effect from the afternoon of 2nd June 1997 and she is relieved of her duties from the same day.

P.S. PILLAI, Dy. Director (Admn.)

## DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

New Delhi-110001, the 31st March 2003

No. PF-5097/Admn.I—On attaining the age of superannuation, Smt. Harbhajan Kaur, Statistical Officer, Department of Telecommunications shall stand retired from Government service with effect from the afternoon of 31st March, 2003.

MAN MOHAN SINGH, Under Secy. (Admn.I)

## DEPARTMENT OF POSTS

New Delhi-110001, the 3rd March 2003

Subject : Promotion and posting to the post of Assistant Director (Rectt.), GCS Group 'B'.

No. 9-84/2002-SPG—The Director General (Posts) is pleased to promote the following officials working in Circle Offices in the grade of Office Supdt. to officiate in the grade of Assistant Director (Rectt.) in GCS Group 'B' in the scale of Rs. 6500-200-10500/- with effect from the date of assumption of charge and until further orders. The place of posting is indicated against each:

S. No.	Name of the Officer	Circle where working at present	Circle to which posted on promotion
	(S/Shri)		
1.	M. Sanaullah	J & K	J & K
2.	Harbans Singh Bhatia	Punjab	Punjab

2. The four sanctioned posts of Assistant Director (Rectt.), GCS Group 'B' in the Department are hitherto to be filled up on rotation basis and will get transferred to the circle to which the promoted officer belongs as clarified in this Directorate letter No. 31-23/91-PE-II dated 21.09.2001. The post ceases to operate on retirement of the incumbent of the post in the concerned circle.

## 3. Vigilance/Disciplinary case, if any

In case any vig./disc. case, of the type referred to in O.M. No. 22011/4/91-Estt.(A) dated 14.09.92 from DOP&T circulated vide this office Memo. No. 25-19/88-SPG dated 13.10.92 is pending against the official, he should not be relieved for posting without obtaining specific orders from this office. In case any punishment is current against the official, he should not be promoted before expiry of currency of punishment. A report in this regard be submitted immediately.

## 4. Option for Fixation of Pay

If the officer wishes to give option for choosing date for fixation of pay under FR-22(1)(a)(1), he should do so within one month from the date of promotion.

## 6. The charge reports may please be sent to this office in due course.

R.S. YADAV, Asstt. Director General (SGP)

The 13th March 2003

No. 9-14/2001-SPG.—The Director General (Posts) is pleased to grant proforma promotion in P.S. Group "B" to the following officers (Rs. 7500-250-12000) on deputation in terms of Clause II of APS of FR-22 with effect from the date of joining of their immediate juniors as mentioned against each:—

Sl. No.	Name of the Officer	With effect from
	(S/Shri)	
1.	Joginder Singh	25.09.2002
2.	Janardhana	18.11.2002
3.	K. Thania Naik	24.09.2002
4.	S. N. Dave	01.11.2002
5.	A.T. Pancholi	18.11.2002

R. S. YADAV, Asstt. Director General (SGP)

MINISTRY OF TOURISM & CULTURE  
(DEPARTMENT OF CULTURE)  
New Delhi, the 27th March 2003

No. F. 7-3/99-M.I.—Consequent upon his selection by Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri Sanjib Kumar Singh, Assistant Curator (Publication) to the post of Deputy Curator (Exhibition Cell), Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial post in pay scale of Rs. 8000-13,500/- in National Museum on deputation basis for a period not exceeding 3 years with effect from February 28, 2003 (Forenoon).

M. SUBBARAYAN, Under Secy.

MINISTRY OF SHIPPING

New Delhi, the 25th March 2003

No. A-12028/2/2003/Esst.—The President is pleased to appoint Sh. Ramakant Dikshit, Assistant Chief Engineer, Govt. of India Mint, (Ministry of Finance), NOIDA as Additional Private Secretary to Minister of Shipping (Sh. Shatrughan Sinha) in the pay scale of Rs. 10,000-15,200 with effect from 30.1.2003 (F.N.) on co-terminus basis or until further orders, whichever is earlier.

SUBHASH CHAND, Under Secy.

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS  
New Delhi, the 21st March 2003

No. RW/AP(CE)/310(Vol.II)—The President is pleased to appoint Shri A. N. Dhodapkar, Superintending Engineer (Civil) to the post of Chief Engineer (Civil) in the Ministry of Road Transport & Highways, New Delhi in the pay scale of Rs. 18,000-500-22,400/- w.e.f. 14.03.2003 (FN) on regular basis and until further orders.

B. B. JAIN, Under Secy.

No. RW/AP(CE)/37(Vol.III)—The President is pleased to appoint Shri V. K. Sachdeva, Superintending Engineer (Mech.) to the post of Chief Engineer (Mech.) in the Ministry of Road Transport & Highways, New Delhi in the pay scale of Rs. 18,400-500-22,400/- w.e.f. 20.03.2003 (FN) on regular basis and until further orders.

B. B. JAIN, Under Secy.

No. RW/AP(CE)/331(Vol.III)—The President is pleased to appoint Shri Ashok Wasson, Superintending Engineer (Civil) to the post of Chief Engineer (Civil) in the Ministry of Road Transport & Highways, New Delhi in the pay scale of Rs. 18,400-500-22,400/- w.e.f. 14.03.2003 (FN) on regular basis and until further orders.

B. B. JAIN, Under Secretary

(SHIPPING WING)

New Delhi, the 26th March 2003

No. A-12026/1/2003-MA—The President is pleased to appoint Shri G. S. Sahni, IAS (MP-71) as Director general of Shipping in the Directorate General of Shipping, Mumbai, in the rank and pay of Additional Secretary to the Government of India w.e.f. 10.3.2003 (FN) until further orders.

R. S. BISHT, Under Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 24th March 2003

No. 7/12/99-GW.I—The President is pleased to appoint Smt. Sandhya Mohapatra to the post of Junior Hydrogeologist in the grade of Scientist 'B' in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in Central Ground Water Board on temporary basis with effect from 16.12.2002 (FN).

She will be on probation for a period of two years with effect from the date of joining the post which may be extended by the competent authority at his discretion, if considered necessary.

SOHAN S. SAINI, Under Secy.